



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3 Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39 ]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 1978/माघ 10 1899

No. 39 ]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 1978/MAGHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली 30 जनवरी, 1978

सीमा-शुल्क

सा० का० वि० 54(अ) --कस्टम एक्ट, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 51) के प्रारंभ 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए, यह समाजित हो जाना कि ऐसा करना चाहिए कि माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए मोटर याता के या यथेष्ट स्थिति में ट्रेक्टरों के विनिर्माण के लिए आवश्यक आर उक्त अधिनियम के अंतर्गत के विनिर्माण माल को--

(क) माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए, 1975 (1975 का 51) के प्रारंभ अधिनियम के अंतर्गत उन पर उपाध्याय सीमा-शुल्क के उतारने में या माल के 40 प्रतिशत में प्रतिशत है, और

(ख) उन सम्पूर्ण व्यक्तिगत जहाजों में जो वह उक्त सीमा-शुल्क के प्रतिनिधित्व में धारा के अंतर्गत उन पर उपाध्याय उपाध्याय निम्नलिखित शर्तों के अधिनियम में देता है --

(1) उक्त अधिनियम में उक्त माल या वस्तुओं का लाने वाली या व्यक्तिगत, माल या वस्तुओं का परिवहन करने वाले मोटर याता के, या ट्रेक्टरों के विनिर्माण के लिए आवश्यक है और ऐसी माल का लाने वाली या वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक है जो विशेष आयात व्यक्तियों नियंत्रण अनुज्ञप्ति के अंतर्गत सम्पूण आयात है, और

(ii) आयातकर्ता को सहायक सीमा-शुल्क कलेक्टर को सघटको या माल की निर्यात के समय यह माध्य प्रस्तुत करना चाहिए कि उनका माल व्यक्तिगत, माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए मोटर याता के या यथेष्ट स्थिति में ट्रेक्टरों के विनिर्माण के लिए या मोटरों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय और महानिदेशक, तकनीक विकास द्वारा सम्पूण अनुमादित कार्यक्रम है।

2 वर अधिसूचना 31 मार्च 1975 तक, जिसके अंतर्गत यह ताराख भी है प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 20/फ० सं० 153/798/77 पृ० 1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th January, 1978

CUSTOMS

**G.S.R 54(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempt the components required for the manufacture of motor vehicles for the transport of persons, goods, materials, or of tractors and the goods required for the manufacture of such components as above from—

- so much of the duty of custom, which is leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of 40 per cent ad valorem, and
- the whole of the additional duty, wherever leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the condition that—

- (i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components which are required for the manufacture of motor vehicle for the transport of persons, goods or materials, or of tractors and to those goods required for the manufacture of such components which are duly covered by special import trade control licences; and
- (ii) the importers should produce evidence to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the components or the goods that they have a programme duly approved by the Ministry of Industry and the Director General, Technical Development, for the manufacture of motor vehicles for the transport of persons, goods or materials, or of tractors, or for the manufacture of components, as the case may be.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1978.

[No. 23/F. No. 355/298/77-Cus.I]

सीमा-शुल्क

सां. कां. निं. 55(अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, व्यक्तियों, माल या वस्तुओं का परिवहन करने वाले मोटर यानों के या ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सघटकों और उक्त सघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माशकों, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है:—

- (i) इस आदेश छूट केवल ऐसे सघटकों को लागू होंगे जो व्यक्तियों, माल या वस्तुओं का परिवहन करने वाले मोटर-यानों के, या ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित है या ऐसे माल को लागू होंगे जो ऐसे सघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित है जो विशेष आयात व्यवसाय नियंत्रण अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत सम्पन्न आते हैं; और
- (2) आयातकर्ता को सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर को सघटकों या माशकों निकाली के समय यह साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए

कि उनके पास व्यक्तियों, माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए मोटर-यानों के या यथार्थतः, ट्रैक्टर के विनिर्माण के लिए या सघटकों के विनिर्माण के लिए उद्योग मन्त्रालय और सहायक, तकनीकी विकास उद्योग सम्पन्न अनुमोदित कार्यक्रम है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1978 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 24/कां. सं. 355/298/77 सी. शु. 1]

ए. मं. जयरामन, अवर सचिव

### CUSTOMS

**G.S.R. 55(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the components required for the manufacture of motor vehicles for the transport of persons, goods or materials, or of tractors and the goods required for the manufacture of such components from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Finance Act, subject to the condition that—

- (i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components which are required for the manufacture of motor vehicles for the transport of persons, goods or materials, or of tractors and to those goods required for the manufacture of such components which are duly covered by Special import trade control licences; and
- (ii) the importers should produce evidence to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the components or the goods that they have a programme duly approved by the Ministry of Industry and the Director General, Technical Development, for the manufacture of motor vehicles for the transport of persons, goods or materials, or of tractors or for the manufacture of components, as the case may be.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1978.

[No. 24/F. No. 355/298/77-Cus.I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.